

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 1984/ माघ 10, 1905
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 1984/MAGHA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1984

क०आ० 45(अ):—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमतों को उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिमिति की, उसके स्तंभ (3) और (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में क्रमशः विनिर्दिष्ट शक्ति और पैक आकार सहित, अग्रणी कीमत के रूप में उस पर उत्पादन-शुल्क और स्थानीय करों को यदि कोई हों, छोड़कर नियत करती है:—

सारणी				
क्रम सं०	विनिमित्त का नाम	शक्ति	पैक आकार	अग्रणी कीमत (रु०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग 3 विनिमित्तियाँ				
1.	आइसोसोलील टिकियाँ	10 मि० ग्रा०/ टिकियाँ	100 बोतल	9.38
		5 मि० ग्रा०/ टिकियाँ	100 बोतल	4.96

[सं० 9(4)/83-प्रौषधि-II]
ई० एन० मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 1984

S.O. 45(E).--In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes prices at specified in column(5) of the Table below as the leader price, exclusive of excise duty and local taxes, if any, of the formulation specified in the corresponding entry in column(2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack size	Leader price (Rs.)
1	2	3	4	5
Category-III Formulations				
1.	Isordil Tablets	10 mg/Tablet	100's Bottle	9.38
		5 mg/Tablet	100's Bottle	4.96

[No. 9(4)/83-Drug.II]
E.N. MURTHY, Dy. Secy.